



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 1979/कार्तिक 11, 1901

No 453]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 1979/KARTIKA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1979

का०प्रा० 630(प्र)/18कक/आईडीआरए/79. —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूत पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 695(प्र)/18कक/आईडीआरए/72, तारीख 3 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबंध ग्रहण आदेश कहा गया है) द्वारा भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को, मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का 2 नवम्बर, 1977 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिये जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 55(प्र)/18कक/आईडीआरए/75, तारीख 23 जनवरी, 1976 द्वारा भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड की प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति को समाप्त करके, उसके स्थान पर उक्त उपक्रम का प्रबंध करने के लिए एक प्रबंध बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम प्रबंध बोर्ड कहा गया है) जो उस आदेश के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बना था, प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 742(प्र) तारीख 1 नवम्बर,

1977 द्वारा यह निर्देश दिया था कि प्रबंध ग्रहण आदेश, 2 नवम्बर, 1979 तक की अवधि के लिये, जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, प्रभावी बना रहेगा ;

और प्रथम प्रबंध बोर्ड के गठन को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 743(प्र) तारीख 1 नवम्बर, 1966 द्वारा अंगतः उपान्तरित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 60(प्र), तारीख 2 फरवरी, 1978 द्वारा प्रथम प्रबंध बोर्ड के स्थान पर एक नया प्रबंध बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय प्रबंध बोर्ड कहा गया है) स्थापित किया गया था ;

और द्वितीय प्रबंध बोर्ड के गठन को केन्द्रीय सरकार के अधिनूचित आदेशों द्वारा समय-समय पर, उपान्तरित कर दिया गया था ;

और द्वितीय प्रबंध बोर्ड, अपने यथा उपान्तरित स्वका में 2 नवम्बर, 1979 तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अर्थात्, वह तारीख जिस तक भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 742 (प्र), तारीख 1 नवम्बर, 1977 द्वारा प्रबंध ग्रहण आदेश की अवधि बढ़ाई गई थी, पदस्थ रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उपक्रम का प्रबंध करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति निकाय के संबंध में, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 742 (प्र), तारीख 1 नवम्बर, 1977 द्वारा यथा विस्तारित और इससे पूर्व उल्लिखित अन्य आदेशों द्वारा यथा उपान्तरित प्रबंध-ग्रहण आदेश एक वर्ष की अवधि तक और प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश करती है कि ठीक पूर्ववर्ती पैरा में प्रथमः उल्लिखित और इस प्रकार उपांतरित आदेश, 2 नवम्बर 1980 जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है तक और प्रभावी बना रहेगा और इस आदेश के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्रबंध बोर्ड, जो उक्त उपक्रम का प्रबंध करने के लिये प्राधिकृत द्वितीय प्रबंध बोर्ड है और जो इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व पदस्थ था, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त उपक्रम का प्रबंध करता रहेगा, अर्थात् —

- (1) प्रबंध-बोर्ड, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ;
- (2) बोर्ड 2 नवम्बर, 1980 जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, पदस्थ रहेगा ।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो, उक्त प्रबंध बोर्ड या प्रबंध बोर्ड के किसी व्यक्ति की सेवा इससे पूर्व भी समाप्त कर सकती है ।

2. प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा, अर्थात् :—
अध्यक्ष :

1. श्री आई० एम० सहाय, संयुक्त सचिव वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग), नई दिल्ली ।

सदस्य

2. मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (नागरिक पूर्ति विभाग), नई दिल्ली ।
3. श्री सी० एल० लोगानी भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
4. श्री एल० के० मल्होत्रा, मुख्य कार्यपालक सदस्य, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली ।
5. लेखा नियंत्रक, वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. श्री दयश्रीत सेन आदेश, बी/89 रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
7. श्री विजय पाल सिंह ई/10-क ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ।
8. श्री बी० के० भरोड़ा, 128, सरोजिनी मार्केट, नई दिल्ली-110023 ।
9. श्री आर० कुमार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, 242, डी०बी०ए० आफिस कम्प्लेक्स, झण्डेवाला एक्सटेंशन, दिल्ली-110055.
10. श्री आर० जी० राज्याध्यक्ष, ई-99, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।
11. श्री एन० एम० सेट्टी, कार्यपालक सदस्य (तकनीकी) गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मज्जी मंडी, दिल्ली ।
12. श्री एम० एम० सूरी, संयुक्त निदेशक, खाद्य और पूर्ति विभाग, पंजाब सरकार, झण्डेगढ़
13. श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम, सचिव तथा आयुक्त खाद्य और नागरिक पूर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
14. श्री एन० अग्रवाल, महाप्रबंधक, (प्रचालन) चण्डीगढ़ सचिव, भारतीय स्टेट बैंक ।

[फा० सं० 4/12/72-सी०यू०सी०]

ब० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development) ORDER

New Delhi, the 2nd November, 1979

S.O. 630(E)/18AA/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 695(E)/18AA/IDRA/72, dated

the 3rd November, 1972 (hereinafter referred to as the taking over of management order), the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs. Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi, (hereinafter referred to as the said undertaking), for a period of five years upto and inclusive of the 2nd November, 1977 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S. O. 55(E)/18AA/IDRA/75, dated the 23rd January, 1976, the Central Government terminated the appointment of the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited as the authorised person and authorised instead a Board of Management (hereinafter referred to as the first Board of Management) consisting of the persons referred to in paragraph 2 of that Order to manage the said undertaking ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 742(E), dated the 1st November, 1977, the Central Government directed that the taking over of management order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1979 ;

And, whereas, the constitution of the first Board of Management was partially modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 743(E), dated the 1st November, 1977 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 60(E), dated the 2nd February, 1978, the first Board of Management was replaced by a new Board of Management (hereinafter referred to as the second Board of Management) ;

And, whereas, the constitution of the second Board of Management was modified, from time to time by the Central Government by notified orders ;

And, whereas, the second Board of Management, with its constitution as so modified, is to hold office upto and inclusive of the 2nd November, 1979, namely, the date upto which the period of the taking over of management order was extended by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 742(E), dated the 1st November, 1977 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the taking over of management order, as extended by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 742(E), dated the 1st November, 1977 and as modified by the other orders heretofore mentioned regarding the person or body of persons authorised to manage the said undertaking, should continue to have effect for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA, read with the proviso to sub-section (2) of section 18A, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned in the immediately preceding paragraph, and as so modified, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1980 and that the said undertaking shall continue to be managed by the Board of Management referred to in paragraph 2 of this order, being the second Board of Management authorised to manage the said undertaking and holding office immediately before the date of issue of this Order, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the Board shall hold office upto and inclusive of the 2nd November, 1980;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the said Board of Management, or of any of the persons comprising that Board of Management, earlier if that Government considers necessary to do so.

2. The Board of Management shall consist of the following namely :—

CHAIRMAN

1. Shri I. M. Sahai, Joint Secretary,
Ministry of Commerce and Civil Supplies,
(Department of Civil Supplies),
New Delhi.

MEMBERS

2. Chief Director,
Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils
and Fats (Department of Civil Supplies),
New Delhi.
3. Shri C. L. Logani, Manager, Industrial
Reconstruction Corporation of India Limited,
New Delhi.
4. Shri L. K. Malhotra, Chief Executive Member,
Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi.
5. Controller of Accounts, Ministry of Commerce
and Civil Supplies New, Delhi.
6. Shri Daljit Sen Adel,
B/89 Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
7. Shri Vijaipal Singh,
E/10-A, East of Kailash,
New Delhi.

8. Shri B. K. Arora,
128, Sarojini Market,
New Delhi-110023.
9. Shri R. Kumar, Chartered Accountant,
242, DDA Office Complex,
Jhandewalan Extension,
Delhi-110055.
10. Shri R. G. Rajadhyaksha, E-99,
Greater Kailash-I, New Delhi.
11. Shri N. M. Shetty, Executive Member (Technical),
Ganesh Flour Mills Company Limited,
Subzi Mandi, Delhi.
12. Shri S. S. Suri, Joint Director,
Food and Supplies Department,
Government of Punjab,
Chandigarh.
13. Shri Manohar Subramaniam,
Secretary and Commissioner,
Food and Civil Supplies,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.
14. Shri N. Agrawal, General Manager (Operations),
Chandigarh Circle, State Bank of India.

[File No. 4/12/72-CUC]

B. ROY, Jt. Secy.

